

Series OSR/1/C

कोड नं. **67/1/2**

Code No.

रोल नं.

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें ।

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ **23** हैं ।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें ।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में **25** प्रश्न हैं ।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें ।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है । प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा । 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे ।
- Please check that this question paper contains **23** printed pages.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains **25** questions.
- **Please write down the Serial Number of the question before attempting it.**
- 15 minutes time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

लेखाशास्त्र

ACCOUNTANCY

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 80

Maximum Marks : 80

सामान्य निर्देश :

- (i) यह प्रश्न-पत्र तीन भागों में विभक्त है – क, ख और ग ।
- (ii) भाग क सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है ।
- (iii) परीक्षार्थियों को शेष भाग ख और ग में से कोई एक भाग हल करना है ।
- (iv) किसी प्रश्न के सभी भागों के उत्तर एक ही स्थान पर लिखिए ।

General Instructions :

- (i) This question paper contains three parts A, B and C.
- (ii) Part A is **compulsory** for all candidates.
- (iii) Candidates can attempt only **one** part of the remaining parts B and C.
- (iv) All parts of the questions should be attempted at one place.

भाग क
(साझेदारी फर्मों तथा कम्पनियों के लिए लेखांकन)
PART A

(Accounting for Partnership Firms and Companies)

1. अंशों की संस्थागत बिक्री का क्या अर्थ है ? 1
What is meant by private placement of shares ?
2. पी, क्यू तथा आर एक फर्म में साझेदार थे जो लाभों को क्रमशः 5 : 4 : 3 के अनुपात में विभाजित करते थे । उनकी पूँजी क्रमशः ₹ 50,000, ₹ 40,000 तथा ₹ 30,000 थी । क्यू के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म की ₹ 6,00,000 की ख्याति की राशि का समायोजन शेष साझेदारों के पूँजी खातों में किस अनुपात में किया जाएगा ? उल्लेख कीजिए । 1
- P, Q and R were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5 : 4 : 3 respectively. Their capitals were ₹ 50,000, ₹ 40,000 and ₹ 30,000 respectively. State the ratio in which the goodwill of the firm, amounting to ₹ 6,00,000, will be adjusted in the capital accounts of the remaining partners on the retirement of Q.

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की सारणी ए के अनुसार याचना से पूर्व प्राप्त राशि पर कम्पनी द्वारा किस दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है ? 1
At what rate interest on calls-in-advance is paid by the company according to Table A of Companies Act, 1956 ?
4. एक्स तथा वाई साझेदार हैं । वाई अपने बेटे 'के' को व्यवसाय में प्रवेश दिलाना चाहता है । क्या 'के' फर्म का साझेदार बन सकता है ? कारण बताइए । 1
X and Y are partners. Y wants to admit his son K into business. Can K become the partner of the firm ? Give reason.
5. एक साझेदार के प्रवेश के समय पर सम्पत्तियों एवं देयताओं का पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाता है ? 1
Why are assets and liabilities revalued at the time of admission of a partner ?
6. उस देयता का नाम बताइए जो स्थिति-विवरण में नहीं दिखलाई जाती, लेकिन फर्म के समापन के समय उसका भुगतान किया जाता है । 1
Name the liability which is not shown in the Balance Sheet, but paid at the time of dissolution of the firm.
7. 'ऋणपत्र' का क्या अर्थ है ? 1
What is meant by 'Debenture' ?
8. एक व्यवसाय पिछले कुछ वर्षों में ₹ 1,00,000 का औसत लाभ अर्जित किया है । समरूप व्यवसाय की सामान्य प्रतिफल दर 10% है । व्यवसाय की सम्पत्तियों का मूल्य ₹ 10,00,000 था तथा बाह्य देयताएँ ₹ 1,80,000 की थीं । अधिलाभ विधि से फर्म की ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए, यदि ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के $2\frac{1}{2}$ वर्षों के क्रय के बराबर किया जाता है । 3
A business earned average profits of ₹ 1,00,000 during the last few years. The normal rate of return in similar type of business is 10%. The assets of the business were ₹ 10,00,000 and external liabilities were ₹ 1,80,000. Calculate the value of goodwill of the firm by super profit method, if the goodwill is valued at $2\frac{1}{2}$ years' purchase of super profits.

9. 1 अप्रैल, 2012 को इण्डियन स्पोर्ट्स लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के ₹ 30,000 के 10% ऋणपत्रों का निर्गमन किया। निर्गमन पूर्णरूपेण अभिदत्त हुआ। शर्तों के अनुसार ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक किया जाता है। वर्ष 2012 – 13 के लिए ऋणपत्रों पर ब्याज के भुगतान की आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

3

Indian Sports Ltd. issued ₹ 30,000, 10% debentures of ₹ 100 each on 1st April, 2012. The issue was fully subscribed. According to the terms interest is payable on half yearly basis. Pass necessary journal entries for the payment of interest on debentures for the year 2012 – 13.

10. महाराणा लिमिटेड का मुख्य व्यवसाय टायर निर्माण है। कम्पनी, कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों तथा सेबी के मार्गदर्शनों के प्रेक्षण के विषय में अत्यन्त सतर्क है। 1 अप्रैल, 2010 को कम्पनी ने ₹ 100 प्रत्येक के ₹ 18,00,000, 8% ऋणपत्रों का निर्गमन किया। इनका शोधन 5% प्रीमियम पर किया जाना था। 31 मार्च, 2013 को, सभी ऋणपत्रों का शोधन कर दिया गया। चूँकि टायरों का निर्माण करने से वायु प्रदूषण होता है, अतः कम्पनी ने इसके प्रभावी नियन्त्रण के लिए एक संयंत्र स्थापित किया। ऋणपत्रों के शोधन की आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए तथा उस मूल्य की पहचान भी कीजिए जो महाराणा लिमिटेड द्वारा अवलोकित किया गया। यह मान लिया गया है कि कम्पनी के ऋणपत्रों के शोधन संचय खाते में पर्याप्त शेष है।

3

Maharana Ltd's main business is manufacturing of tyres. The company is very particular about the observation of the provisions of the Companies Act and SEBI guidelines. On 1st April, 2010 the company issued ₹ 18,00,000, 8% debentures of ₹ 100 each. The debentures were redeemable at a premium of 5%. On 31st March, 2013, all the debentures were redeemed. Since the manufacturing of tyres results in air pollution, the company had installed a plant for its effective control.

Pass necessary journal entries for the redemption of debentures. Also identify the value observed by Maharana Ltd. It is assumed that the company has adequate balance in Debenture Redemption Reserve Account.

11. सीता, गीता तथा रीता साझेदार थीं जो लाभों को क्रमशः 2 : 2 : 1 के अनुपात में विभाजित करती थीं। 31 मार्च, 2013 को उनका स्थिति-विवरण निम्नलिखित था :

स्थिति-विवरण 31 मार्च, 2013

देयताएँ	राशि ₹	सम्पत्तियाँ	राशि ₹
पूँजी :			
सीता	1,20,000	रोकड़	41,000
गीता	80,000	स्कन्ध	60,000
रीता	1,00,000	देनदार	44,000
लेनदार	60,000	भवन	2,00,000
देय विपत्र	40,000	संयंत्र	80,000
लाभ-हानि खाता	25,000		
	4,25,000		4,25,000

उपर्युक्त तिथि को सीता ने अवकाश ग्रहण किया तथा निम्नलिखित के लिए सहमति हुई :

- (i) स्कन्ध का मूल्यांकन ₹ 59,000; देनदार ₹ 40,000; भवन ₹ 2,10,000; संयंत्र ₹ 70,000 तथा लेनदारों का ₹ 50,000 पर हुआ।
- (ii) सीता को देय धनराशि उसके ऋण खाते में स्थानान्तरित की जाएगी।

पुनर्मूल्यांकन खाता तथा सीता का पूँजी खाता तैयार कीजिए।

Sita, Geeta and Rita were partners sharing profits in the ratio of 2 : 2 : 1 respectively. Following was their Balance Sheet as at 31st March, 2013 :

Balance Sheet as at 31st March 2013

Liabilities	Amount ₹	Assets	Amount ₹
Capitals :			
Sita	1,20,000	Cash	41,000
Geeta	80,000	Stock	60,000
Rita	1,00,000	Debtors	44,000
Creditors	60,000	Building	2,00,000
Bills Payable	40,000	Plant	80,000
Profit and Loss A/c	25,000		
	4,25,000		4,25,000

On the above date Sita retired and following were agreed :

- (i) Stock was valued at ₹ 59,000; Debtors ₹ 40,000; Building ₹ 2,10,000; Plant ₹ 70,000 and Creditors ₹ 50,000.
 - (ii) Amount due to Sita will be transferred to Sita's loan account.
- Prepare Revaluation Account and Sita's Capital Account.

12. क लिमिटेड का पंजीयन ₹ 10,00,000 की अधिकृत पूँजी से हुआ जो ₹ 10 प्रत्येक के समता अंशों में विभक्त थी । कम्पनी ने 50,000 अंशों के निर्गमन के लिए आवेदन आमन्त्रित किए । 48,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए । सभी याचना राशि माँग ली गई तथा प्राप्त हो गई केवल 1,000 अंशों को छोड़कर, जिन पर ₹ 2 प्रति अंश की अंतिम याचना राशि नहीं मिली । इन सभी अंशों को ज़ब्त कर लिया गया तथा बाद में ₹ 9,000 पर पूर्ण प्रदत्त पुनः निर्गमित कर दिया गया ।

- (i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की सारणी VI, भाग I के अनुसार क लिमिटेड के स्थिति विवरण में 'अंश पूँजी' को किस प्रकार दर्शाया जाएगा ?
- (ii) उपर्युक्त के लिए 'खातों के नोट्स' भी तैयार कीजिए ।

A Ltd. was registered with an authorised capital of ₹ 10,00,000 divided into equity shares of ₹ 10 each. The company invited applications for the issue of 50,000 shares. Applications for 48,000 shares were received. All calls were made and were duly received except the final call of ₹ 2 per share on 1,000 shares. All these shares were forfeited and later on re-issued at ₹ 9,000 as fully paid.

- (i) Show how 'Share Capital' will appear in the Balance Sheet of A Ltd. as per Schedule VI, Part I of the Companies Act, 1956.
- (ii) Also prepare 'Notes to Accounts' for the same.

13. (क) रोहन तथा मोहन एक फर्म में साझेदार हैं तथा क्रमशः 5 : 3 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। वे भीम को लाभ में $\frac{1}{7}$ भाग के लिए साझेदार के रूप में प्रवेश कराते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात 4 : 2 : 1 होगा। रोहन तथा मोहन के त्याग अनुपात की गणना कीजिए।

(ख) अमला तथा कमला एक फर्म में साझेदार हैं तथा क्रमशः 4 : 1 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। उन्होंने बिमला को लाभ में $\frac{1}{4}$ भाग के लिए साझेदार के रूप में प्रवेश कराया, जिसे बिमला ने पूर्णतः अमला से प्राप्त किया है। साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए।

2+2=4

- (a) Rohan and Mohan are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5 : 3 respectively. They admit Bhim as a partner for $\frac{1}{7}$ share in the profit. The new profit sharing ratio will be 4 : 2 : 1. Calculate the sacrificing ratio of Rohan and Mohan.
- (b) Amla and Kamla are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4 : 1 respectively. They admitted Bimla as a new partner for $\frac{1}{4}$ share in the profits, which she acquired wholly from Amla. Determine the new profit sharing ratio of the partners.

14. क लिमिटेड ने ख लिमिटेड का चलता हुआ व्यवसाय ₹ 1,50,000 की धनराशि में क्रय किया जिसका भुगतान ₹ 10 प्रत्येक के 10,000 समता अंशों को ₹ 2 प्रीमियम प्रति अंश पर निर्गमित करके तथा शेष राशि को रोकड़ में भुगतान करके किया गया। सम्पत्तियाँ एवं देयताएँ निम्नानुसार ली गई :

संयंत्र – ₹ 40,000; भवन – ₹ 40,000; देनदार – ₹ 30,000;

स्कन्ध – ₹ 50,000; फर्नीचर – ₹ 20,000; लेनदार – ₹ 20,000.

क लिमिटेड की पुस्तकों में उपर्युक्त लेनदेनों के लिए आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

4

A Ltd. purchased a running business from B Ltd. for a sum of ₹ 1,50,000 payable by issue of 10,000 equity shares of ₹ 10 each at a premium of ₹ 2 per share and balance in cash. The assets and liabilities taken over were :

Plant – ₹ 40,000; Building – ₹ 40,000; Debtors – ₹ 30,000;

Stock – ₹ 50,000; Furniture – ₹ 20,000; Creditors – ₹ 20,000.

You are required to pass necessary journal entries for the above transactions in the books of A Ltd.

15. एक्स, वाई तथा जैड एक फर्म में साझेदार थे। 1 अप्रैल, 2012 को उनकी पूँजी क्रमशः ₹ 6,00,000; ₹ 4,00,000 तथा ₹ 2,00,000 थी। साझेदारी संलेख के प्रावधानों के अनुसार वाई ₹ 12,000 प्रति वर्ष कमीशन तथा एक्स ₹ 1,200 प्रति माह वेतन प्राप्ति के अधिकारी थे। साझेदारों को पूँजी पर 8% वार्षिक ब्याज प्राप्ति का भी अधिकार था। लाभों को पूँजी के अनुपात में विभाजित किया जाना था।

31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष का शुद्ध लाभ ₹ 4,22,400 था, जिसका विभाजन उपर्युक्त शर्तों को ध्यान में रखे बिना बराबर-बराबर कर दिया गया। अपनी कार्य टिप्पणी को स्पष्टतया दिखलाते हुए, उपर्युक्त के लिए आवश्यक समायोजन प्रविष्टि कीजिए।

6

X, Y and Z were partners in a firm. On 1st April, 2012 their capitals stood as ₹ 6,00,000; ₹ 4,00,000 and ₹ 2,00,000 respectively. As per provisions of the partnership deed, Y was entitled for commission of ₹ 12,000 p.a. and X for a salary of ₹ 1,200 per month. Partners were also entitled to interest on capital @ 8% p.a. Profits will be shared in the ratio of capitals.

Net profit for the year ended 31.03.2013 was ₹ 4,22,400, which was distributed equally without taking into consideration the above provisions. Showing your workings clearly, pass necessary adjustment entry for the above.

16. क, ख तथा ग एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभों को क्रमशः 5 : 3 : 2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 31 मार्च, 2013 को उनका स्थिति-विवरण निम्नलिखित था :

स्थिति-विवरण 31 मार्च, 2013

देयताएँ	राशि ₹	सम्पत्तियाँ	राशि ₹
लेनदार	12,000	रोकड़	13,000
संचय	10,000	देनदार	8,000
पूँजी :		स्कन्ध	10,000
क	30,000	मशीनरी	30,000
ख	20,000	भवन	20,000
ग	15,000	पेटेन्ट्स	6,000
	87,000		87,000

1 अक्टूबर, 2013 को, बीमारी के कारण ख की मृत्यु हो गई। फर्म तथा ख के निष्पादकों के मध्य यह समझौता हुआ कि ख को देय धनराशि का उपयोग गाँव में एक सामुदायिक भवन बनवाने के लिए किया जाएगा। समझौते के अनुसार :

- ख्याति का मूल्यांकन पिछले पाँच वर्षों के औसत लाभ के दो गुने के बराबर होगा, जो : 2009 में ₹ 10,000; 2010 में ₹ 13,000; 2011 में ₹ 12,000; 2012 में ₹ 15,000 तथा 2013 में ₹ 20,000 थे।
 - पेटेन्ट्स का मूल्यांकन ₹ 8,000; मशीनरी का ₹ 28,000 तथा भवन का ₹ 30,000 हुआ।
 - मृत्यु के दिन तक ख के हिस्से के लाभ की गणना, वर्ष 2013 के लाभ के आधार पर होगी।
 - पूँजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा।
 - ख के निष्पादक को देय राशि दान खाते में स्थानान्तरित कर दी जाएगी।
- (क) ख के निष्पादक को प्रस्तुत करने के लिए उसका पूँजी खाता तैयार कीजिए तथा
(ख) प्रश्न में उजागर किए गए किसी एक मूल्य की पहचान कीजिए।

A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5 : 3 : 2 respectively. Their Balance Sheet as on 31st March, 2013 was as follows :

Balance Sheet as on 31st March, 2013

Liabilities	Amount ₹	Assets	Amount ₹
Creditors	12,000	Cash	13,000
Reserves	10,000	Debtors	8,000
Capitals :		Stock	10,000
A	30,000	Machinery	30,000
B	20,000	Buildings	20,000
C	15,000	Patents	6,000
	87,000		87,000

On 1st October, 2013, due to illness B died. It was agreed between the firm and B's executors that the amount due to B will be used for construction of a community hall in the village. As per the agreement

- (i) Goodwill is to be valued at two years' purchase of the average profits of previous five years, which were : 2009 – ₹ 10,000; 2010 – ₹ 13,000; 2011 – ₹ 12,000; 2012 – ₹ 15,000 and 2013 – ₹ 20,000.
 - (ii) Patents were valued at ₹ 8,000; Machinery at ₹ 28,000 and Buildings at ₹ 30,000.
 - (iii) B's share of profit till the date of his death will be calculated on the basis of profit of the year 2013.
 - (iv) Interest on capital will be provided at 10% p.a.
 - (v) Amount due to B's executors will be transferred to Charity account.
- (a) Prepare B's capital account to be presented to his executor and
 - (b) Identify any one value being highlighted in the question.

17. (क) सी लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 1,000 अंशों को, जिनका निर्गमन ₹ 8 प्रति अंश के बट्टे पर किया गया था, ज़ब्त कर लिया। इन अंशों पर ₹ 30 प्रति अंश की प्रथम याचना राशि प्राप्त नहीं हुई थी तथा ₹ 20 प्रति अंश की अन्तिम याचना राशि अभी माँगी नहीं गई थी। बाद में इन अंशों को ₹ 70 प्रति अंश की दर से ₹ 80 प्रदत्त पर पुनः निर्गमित कर दिया गया।

सी लिमिटेड की पुस्तकों में उपर्युक्त लेनदेनों के लिए आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

- (ख) एल लिमिटेड ने ₹ 20 प्रत्येक के 470 समता अंशों को, जिनका निर्गमन ₹ 3 प्रति अंश के प्रीमियम पर किया गया था, ज़ब्त कर लिया। इन अंशों पर ₹ 8 प्रति अंश की आबन्टन राशि (₹ 3 प्रीमियम सहित) तथा ₹ 5 प्रति अंश की प्रथम याचना राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। ₹ 5 प्रति अंश की अन्तिम याचना राशि अभी नहीं माँगी गई थी। इनमें से 235 अंशों का ₹ 19 प्रति अंश के भुगतान पर पूर्ण प्रदत्त रूप से पुनः निर्गमन कर दिया गया।

एल लिमिटेड की पुस्तकों में उपर्युक्त लेनदेनों के लिए आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

4+4=8

अथवा

आर लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 10,000 समता अंशों को ₹ 4 प्रति अंश के बट्टे पर निर्गमित करने के लिए आवेदन आमन्त्रित किए। राशि निम्नानुसार देय थी :

आवेदन पर – ₹ 20 प्रति अंश

आबन्टन पर – ₹ 30 प्रति अंश

प्रथम एवं अन्तिम याचना पर – ₹ 46 प्रति अंश

9,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए तथा सभी आवेदकों को अंशों का आबन्टन कर दिया गया। सभी देय राशियाँ प्राप्त हो गईं केवल 400 अंशों को छोड़कर जिन्होंने प्रथम एवं अन्तिम याचना राशि नहीं दी। इन अंशों को ज़ब्त कर लिया गया। ज़ब्त किए हुए अंशों में से, 300 अंशों को ₹ 27,000 के भुगतान पर पूर्ण प्रदत्त पुनः निर्गमित कर दिया गया।

कम्पनी की पुस्तकों में आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

8

- (a) C Ltd. forfeited 1,000 shares of ₹ 100, each issued at a discount of ₹ 8 per share. On these shares the first call of ₹ 30 per share was not received and final call of ₹ 20 per share was not made. Subsequently these shares were reissued at ₹ 70 per share ₹ 80 paid up.

Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of C Ltd.

- (b) L Ltd. forfeited 470 equity shares of ₹ 20 each issues at a premium of ₹ 3 per share for the non-payment of allotment money of ₹ 8 (including Premium ₹ 3) and first call of ₹ 5 per share. Final call of ₹ 5 per share was not made. Out of these 235 shares were reissued at ₹ 19 each fully paid.

Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of L Ltd.

OR

R Ltd. invited applications for issuing 10,000 equity shares of ₹ 100 each at a discount of ₹ 4 per share. The amount was payable as follows :

On application – ₹ 20 per share

On allotment – ₹ 30 per share

On first and final call – ₹ 46 per share

Applications were received for 9,000 shares and allotment was made to all the applicants. All amounts due were received except the first and final call on 400 shares. These shares were forfeited. Out of the forfeited shares, 300 shares were reissued at a payment of ₹ 27,000 fully paid up.

Pass necessary journal entries in the books of the company.

18. एल्फा और बीटा एक फर्म में साझेदार थे जो कृत्रिम अंगों में व्यापार करते थे । 1 अप्रैल, 2013 को उन्होंने गामा को, जो बीटा का बहुत अच्छा मित्र है, साझेदारी में प्रवेश कराया । एक दुर्घटना में गामा ने अपना एक हाथ खो दिया तथा एल्फा एवं बीटा ने यह निर्णय लिया कि वे एक कृत्रिम हाथ गामा को मुफ्त दे देंगे । 31 मार्च, 2013 को एल्फा और बीटा का स्थिति-विवरण निम्नानुसार था :

एल्फा और बीटा का स्थिति-विवरण 31 मार्च, 2013 को

देयताएँ	राशि ₹	सम्पत्तियाँ	राशि ₹
संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन	40,000	रोकड़	1,00,000
कर्मचारी क्षतिपूर्ति निधि	56,000	विविध देनदार	8,00,000
अदत्त व्यय	30,000	स्टॉक	2,00,000
लेनदार	3,00,000	संयंत्र	3,86,000
पूँजी :		लाभ-हानि खाता	40,000
एल्फा 5,00,000			
बीटा 6,00,000	11,00,000		
	15,26,000		15,26,000

गामा को निम्नलिखित शर्तों पर फर्म में प्रवेश दिया गया :

- गामा अपनी पूँजी के हिस्से के रूप में ₹ 4,00,000 लाएगा, लेकिन वह ख्याति के लिए कोई भी राशि देने में असमर्थ था ।
- एल्फा, बीटा तथा गामा के बीच नया लाभ विभाजन अनुपात 3 : 2 : 1 होगा ।
- कर्मचारी क्षतिपूर्ति का ₹ 30,000 का दावा था ।
- ₹ 40,000 की राशि को डूबत ऋण के लिए अपलिखित करना था ।
- लेनदारों को ₹ 20,000 का अधिक भुगतान किया गया था ।
- अदत्त व्ययों को ₹ 12,000 तक लाना है ।
- अप्रत्याशित देयता के लिए ₹ 20,000 प्रदान किए गए हैं ।
- फर्म की ख्याति का मूल्यांकन ₹ 1,80,000 पर किया गया है ।

पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूँजी खाते तथा नई फर्म का प्रारम्भिक स्थिति-विवरण तैयार कीजिए । साथ ही किसी एक मूल्य की पहचान कीजिए जो साझेदार समाज को सम्प्रेषित करना चाहते थे ।

राम और श्याम एक फर्म में साझेदार थे जो लाभों को क्रमशः 2 : 3 के अनुपात में विभाजित करते थे । वे वृद्ध हो चले थे तथा उनके व्यवसाय की देखभाल करने वाला कोई नहीं था । अतः उन्होंने व्यवसाय को बन्द करके उसके विक्रय से प्राप्त धनराशि को एक एन.जी.ओ. को दान में देने का निर्णय लिया । वह एन.जी.ओ. शहरी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए वृक्षारोपण के कार्य में संलग्न थी । 31 जनवरी, 2014 को उनका स्थिति-विवरण निम्नलिखित था :

स्थिति-विवरण 31 जनवरी, 2014

देयताएँ	राशि ₹	सम्पत्तियाँ	राशि ₹
लेनदार	65,000	भूमि	1,20,000
देय विपत्र	35,000	मशीनरी	65,000
पूँजी :		ख्याति	10,000
राम	75,000	स्कन्ध	25,000
श्याम	75,000	देनदार	20,000
		रोकड़	10,000
	2,50,000		2,50,000

राम ने लेनदारों का भुगतान 15% छूट पर किया तथा श्याम ने देय विपत्रों का पूरा भुगतान किया । सम्पत्तियों से वसूली इस प्रकार हुई : भूमि से 20% कम; मशीनरी से ₹ 35,000; स्कन्ध से 25% कम तथा देनदारों से ₹ 12,500 । वसूली व्यय ₹ 1,750 का भुगतान श्याम ने किया ।

वसूली खाता, साझेदारों के पूँजी खाते तथा बैंक खाता तैयार कीजिए । साझेदारों द्वारा समाज को सम्प्रेषित किसी एक मूल्य की पहचान भी कीजिए ।

Alfa and Beta were partners in a firm. They were trading in artificial limbs. On 1st April, 2013 they admitted Gama, a good friend of Beta into the partnership. Gama lost his one hand in an accident and Alfa and Beta decided to give one artificial hand free of cost to Gama. The Balance Sheet of Alfa and Beta as at 31st March, 2013 was as follows :

Balance Sheet of Alfa and Beta as at 31st March, 2013

Liabilities	Amount ₹	Assets	Amount ₹
Provision for Doubtful Debts	40,000	Cash	1,00,000
Workmen's Compensation Fund	56,000	Sundry Debtors	8,00,000
Outstanding Expenses	30,000	Stock	2,00,000
Creditors	3,00,000	Machinery	3,86,000
Capitals :		Profit and Loss A/c	40,000
Alfa 5,00,000			
Beta 6,00,000	11,00,000		
	15,26,000		15,26,000

Gama was admitted in the firm on the following terms :

- (i) Gama will bring in ₹ 4,00,000 as his share of capital, but he was unable to bring any amount for goodwill.
- (ii) The new profit sharing ratio between Alfa, Beta and Gama will be 3 : 2 : 1.
- (iii) Claim on account of workmen compensation was ₹ 30,000.
- (iv) To write off bad debts amounted to ₹ 40,000.
- (v) Creditors were paid ₹ 20,000 more.

- (vi) Outstanding expenses be brought down to ₹ 12,000.
- (vii) ₹ 20,000 be provided for an unforeseen liability.
- (viii) Goodwill of the firm was valued at ₹ 1,80,000.

Prepare Revaluation Account, Capital Accounts of Partners and the opening Balance Sheet of the new firm. Also identify any one value which the partners wanted to communicate to the society.

OR

Ram and Shyam were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2 : 3 respectively. They become old and no one was there to look after their business. Therefore, they decided to dissolve the business and donate the amount available to an NGO who are providing service for growing trees in urban areas to control pollution. On 31st January, 2014 their Balance Sheet was as follows :

Balance Sheet as on 31st January, 2014

Liabilities	Amount ₹	Assets	Amount ₹
Creditors	65,000	Land	1,20,000
Bills Payable	35,000	Machinery	65,000
Capitals :		Goodwill	10,000
Ram	75,000	Stock	25,000
Shyam	75,000	Debtors	20,000
		Cash	10,000
	2,50,000		2,50,000

Ram paid the creditors at a discount of 15% and Shyam paid Bills Payable in full. Assets realised as follows : Land at 20% less; Machinery at ₹ 35,000; Stock at 25% less and Debtors at ₹ 12,500. Expenses on realisation ₹ 1,750 were paid by Shyam.

Prepare Realisation Account, Partners' Capital Accounts and Bank Account. Also identify any one value which the partners communicated to the society.

भाग ख

(वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

PART B

(Financial Statements Analysis)

19. 'रोकड़ प्रवाह' का क्या तात्पर्य है ? 1
What is meant by 'Cash flow' ?
20. वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की किसी एक सीमा का उल्लेख कीजिए । 1
State any one limitation of analysis of financial statements.
21. कारण सहित बताइए कि रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय एक मशीनरी के विक्रेता को मशीनरी के क्रय के लिए ₹ 50,000 के 9% ऋणपत्र निर्गमित करने का क्या परिणाम होगा — रोकड़ का अन्तर्वाह, बहिर्वाह अथवा कोई प्रवाह नहीं ? 1
State with reason whether the issue of 9% debentures to a vendor for the purchase of machinery of ₹ 50,000 will result in inflow, outflow or no flow of cash while preparing Cash Flow Statement.
22. कम्पनी अधिनियम, 1956 की परिशोधित सारणी VI भाग I के अनुसार कम्पनी के स्थिति-विवरण में निम्नलिखित मदें किस मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई जाएंगी : 3
- (i) दीर्घकालीन ऋण
 - (ii) व्यापार देयताएँ
 - (iii) कर के लिए आयोजन
 - (iv) प्रतिभूति प्रीमियम संचय
 - (v) पेटेंट्स
 - (vi) उपार्जित आय

State under which major headings the following items will be presented in the Balance Sheet of a company as per revised Schedule VI Part I of the Companies Act, 1956 :

- (i) Long Term borrowings
- (ii) Trade Payables
- (iii) Provision for tax
- (iv) Securities Premium Reserve
- (v) Patents
- (vi) Accrued Incomes

23. निम्नलिखित से 'सकल लाभ अनुपात' तथा 'कार्यशील पूँजी आवर्त अनुपात' की गणना कीजिए :

4

	राशि (₹)
प्रचालन से आगम	30,00,000
प्रचालन से आगम की लागत	20,00,000
चालू सम्पत्तियाँ	6,00,000
चालू देयताएँ	2,00,000
प्रदत्त अंश पूँजी	5,00,000

From the following calculate the 'Gross Profit Ratio' and 'Working Capital Turnover Ratio' :

	Amount (₹)
Revenue from operations	30,00,000
Cost of Revenue from operations	20,00,000
Current Assets	6,00,000
Current Liabilities	2,00,000
Paid up share capital	5,00,000

24. एक्स वाई जैड लिमिटेड के 31 मार्च, 2012 तथा 2013 को समाप्त हुए वर्षों के लाभ-हानि विवरण से उद्धरित निम्नलिखित सूचना के आधार पर, तुलनात्मक लाभ-हानि विवरण तैयार कीजिए :

4

विवरण	31.03.2013 ₹	31.03.2012 ₹
प्रचालन से आगम	48,00,000	30,00,000
कर्मचारी लाभार्थ व्यय	22,00,000	18,00,000
अन्य व्यय	2,00,000	4,00,000
कर दर	40%	40%

From the following extract of the Statement of Profit and Loss for the years ended 31st March, 2012 and 2013 of XYZ Ltd., prepare a Comparative Statement of Profit and Loss :

Particulars	31.03.2013 ₹	31.03.2012 ₹
Revenue from operations	48,00,000	30,00,000
Employees' Benefit Expenses	22,00,000	18,00,000
Other Expenses	2,00,000	4,00,000
Tax Rate	40%	40%

25. निम्नलिखित स्थिति-विवरण से रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए :

	विवरण	नोट संख्या	31.3.2013 ₹	31.3.2012 ₹
I – समता तथा देयताएँ :				
1.	अंशधारी निधि :			
	(अ) अंश पूँजी		6,30,000	5,60,000
	(ब) संचय एवं आधिक्य	1	3,08,000	1,82,000
2.	चालू दायित्व :			
	व्यापारिक देयताएँ		2,80,000	1,82,000
	कुल		12,18,000	9,24,000
II – परिसम्पत्तियाँ :				
1.	अचल परिसम्पत्तियाँ :			
	स्थायी परिसम्पत्तियाँ :			
	संयंत्र		3,92,000	2,80,000
2.	चालू परिसम्पत्तियाँ :			
	(अ) स्कन्ध		98,000	1,40,000
	(ब) व्यापारिक प्राप्तियाँ		6,30,000	4,20,000
	(स) रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य		98,000	84,000
	कुल		12,18,000	9,24,000

खातों के नोट्स

नोट संख्या 1

विवरण	31.3.2013 ₹	31.3.2012 ₹
संचय एवं आधिक्य		
आधिक्य (लाभ-हानि विवरण का शेष)	3,08,000	1,82,000

अतिरिक्त सूचना :

- एक पुरानी मशीनरी को, जिसका पुस्तक मूल्य ₹ 42,000 था, ₹ 56,000 में बेच दिया गया ।
- वर्ष के दौरान मशीनरी की हास कटौती ₹ 28,000 थी ।

Prepare a Cash Flow Statement from the following Balance Sheet :

	Particulars	Note No.	31.3.2013 ₹	31.3.2012 ₹
I – Equity and Liabilities :				
1.	Shareholder's Fund :			
	(a) Share Capital		6,30,000	5,60,000
	(b) Reserves and Surplus	1	3,08,000	1,82,000
2.	Current Liabilities :			
	Trade Payables		2,80,000	1,82,000
	Total		12,18,000	9,24,000
II – Assets :				
1.	Non-Current Assets :			
	Fixed Assets :			
	Plant		3,92,000	2,80,000
2.	Current Assets :			
	(a) Inventories		98,000	1,40,000
	(b) Trade Receivables		6,30,000	4,20,000
	(c) Cash and Cash Equivalents		98,000	84,000
	Total		12,18,000	9,24,000

Notes to Accounts

Note No. 1

Particulars	31.3.2013 ₹	31.3.2012 ₹
Reserves and Surplus		
Surplus (Balance in Statement of Profit and Loss)	3,08,000	1,82,000

Additional Information :

- An old machinery having book value of ₹ 42,000 was sold for ₹ 56,000.
- Depreciation provided on machinery during the year was ₹ 28,000.

भाग ग


(अभिकलित्र लेखांकन)

PART C

(Computerised Accounting)

- 19.** सामान्यीकरण क्या है ? 1
What is normalisation ?
- 20.** अभिकलित्र लेखांकन प्रणाली के किसी एक लाभ का उल्लेख कीजिए । 1
State any one advantage of Computerised Accounting System.
- 21.** किन्हीं दो विधियों को दीजिए जिनसे शंका (क्वेरी) उत्पन्न की जा सकती है । 1
Give any two ways in which a query can be created.
- 22.** अभिकलित्र लेखांकन प्रणाली के अनुमापिता (स्केलेबिलिटी) तथा विश्वसनीयता लक्षणों को समझाइए । 3
Explain Scalability and Reliability features of Computerised Accounting System.
- 23.** आँकड़ा-आधार (डाटाबेस) के अभिलक्ष्यों के रूप में सारणियों, आकृतियों, प्रतिवेदनों तथा स्थूल (मैक्रोज़) को समझाइए । 4
Explain Tables, Forms, Reports and Macros as database objects.
- 24.** एक सूत्र की सहायता से समंकों का अनुसमर्थन करने वाले कदमों का उल्लेख कीजिए । 4
State the steps to validate data with a formula.

25. (क) स्प्रेडशीट के उस कार्य का नाम बताइए तथा समझाइए जो दो अवधियों के मध्य संचित ब्याज भुगतान पर गणना करता है ।
- (ख) निम्नलिखित सूचना से एक्सेल पर गृह किराया भत्ते की गणना हेतु सूत्र की गणना कीजिए :
- मूल वेतन ₹ 25,000 तक 20% की दर से तथा उससे ऊपर 25% की दर से । 2+4=6
- (a) Name and explain the function of spreadsheet which calculates the cumulative interest paid between two periods.
- (b) Calculate the formula from the following information on Excel for computing House Rent Allowance :
- Basic salary upto ₹ 25,000 at 20% and above it at 25%.



Q. Set No.			Marking Scheme 2013-14 Accountancy (055) (Compartment) <u>Delhi – 67/1/2</u> Expected Answers / Value points	Distribution of marks
67/ 1/1	67/ 1/2	67/ 1/3		
4	1	2	Q. What is meant.....placement of shares? Ans. In case of ‘Private Placement of shares’ shares are not offered to the public in general through public issue but offered to a selected group of persons such as promoters, their friends, shareholders of group companies, mutual funds, NRIs, Financial Institutions etc.	1 mark
5	2	-	Q. P,Q,R,.....retirement of Q. Ans. Gaining Ratio i.e. 5:3	1 mark
6	3	-	Q. At whatCompanies Act,1956? Ans. As per Table A, Company is required to pay interest on the amount of calls in advance @6%p.a.	1 mark
-	4	-	Q. X and Yreason. Ans. K can be admitted as partner if X agrees to it otherwise not.	1 mark
-	5	-	Q. Why are.....partner? Ans. The assets and liabilities are revalued at the time of admission of a partner so that only the old partners bear the loss or enjoy the profit due to the change in the present values of assets and liabilities.	1 mark
-	6	-	Q. Name.....firm. Ans. Unrecorded liability.	1 mark
7	7	-	Q. What isDebenture? Ans. Debenture is a written instrument acknowledging a debt under the common seal of the company.	1 mark
-	8	-	Q. A business.....super profits. Ans. Average profits = ₹ 1,00,000 Normal Profits = Capital Employed * 10 /100 = ₹ 8,20,000 * 10 /100 = ₹ 82,000 Super Profits = Average Profits – Normal Profits = ₹ 1,00,000 – ₹ 82,000 = ₹ 18,000 Goodwill = Super Profits * 2 ½ Years' purchase = 18,000 * 5/2 = ₹ 45,000	1 1 1 (1+1+1) =3 marks

-	9	-	Q. Indian Sports Ltd..... year 2012-13. Ans. Books of Indian Sports Ltd. Journal <table border="1"> <thead> <tr> <th>Date</th><th>Particulars</th><th>LF</th><th>Dr (₹)</th><th>Cr (₹)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012 Sept 30</td><td>10% Debenture Interest A/c Dr. To debenture holders A/c (For interest due on debentures)</td><td></td><td>1,500</td><td>1,500</td></tr> <tr> <td>Sept 30</td><td>Debenture holders A/c Dr. To Bank A/c (For interest paid to debenture holders)</td><td></td><td>1,500</td><td>1,500</td></tr> <tr> <td>2013 March 31</td><td>10% Debenture Interest A/c Dr. To debenture holders A/c (For interest due on debentures)</td><td></td><td>1,500</td><td>1,500</td></tr> <tr> <td>March 31</td><td>Debenture holders A/c Dr. To Bank A/c (For interest paid to debenture holders)</td><td></td><td>1,500</td><td>1,500</td></tr> <tr> <td>March 31</td><td>Statement of Profit & Loss Dr. To Debentures Interest A/c (For Interest transferred to statement of P/L)</td><td></td><td>3,000</td><td>3,000</td></tr> </tbody> </table>	Date	Particulars	LF	Dr (₹)	Cr (₹)	2012 Sept 30	10% Debenture Interest A/c Dr. To debenture holders A/c (For interest due on debentures)		1,500	1,500	Sept 30	Debenture holders A/c Dr. To Bank A/c (For interest paid to debenture holders)		1,500	1,500	2013 March 31	10% Debenture Interest A/c Dr. To debenture holders A/c (For interest due on debentures)		1,500	1,500	March 31	Debenture holders A/c Dr. To Bank A/c (For interest paid to debenture holders)		1,500	1,500	March 31	Statement of Profit & Loss Dr. To Debentures Interest A/c (For Interest transferred to statement of P/L)		3,000	3,000	½ ½ ½ ½ 1 =3 Marks
Date	Particulars	LF	Dr (₹)	Cr (₹)																														
2012 Sept 30	10% Debenture Interest A/c Dr. To debenture holders A/c (For interest due on debentures)		1,500	1,500																														
Sept 30	Debenture holders A/c Dr. To Bank A/c (For interest paid to debenture holders)		1,500	1,500																														
2013 March 31	10% Debenture Interest A/c Dr. To debenture holders A/c (For interest due on debentures)		1,500	1,500																														
March 31	Debenture holders A/c Dr. To Bank A/c (For interest paid to debenture holders)		1,500	1,500																														
March 31	Statement of Profit & Loss Dr. To Debentures Interest A/c (For Interest transferred to statement of P/L)		3,000	3,000																														
10	10	-	Q. Maharana Ltd's.....Account. Ans. Books of Maharana Ltd. Journal <table border="1"> <thead> <tr> <th>Date</th><th>Particulars</th><th>LF</th><th>Dr (₹)</th><th>Cr (₹)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013 March 31</td><td>8% Debentures A/c Dr. Premium on redemption of Debentures A/c Dr. To Debenture holders' A/c (For redemption amount due to debenture holder)</td><td></td><td>18,00,000 90,000</td><td>18,90,000</td></tr> <tr> <td>March 31</td><td>Debenture holders' A/c Dr. To Bank A/c (For redemption money paid to debenture holders)</td><td></td><td>18,90,000</td><td>18,90,000</td></tr> <tr> <td>March 31</td><td>Debenture redemption reserve A/c Dr. To General reserve A/c (For the amount of DRR transferred to General reserve account)</td><td></td><td>9,00,000</td><td>9,00,000</td></tr> </tbody> </table>	Date	Particulars	LF	Dr (₹)	Cr (₹)	2013 March 31	8% Debentures A/c Dr. Premium on redemption of Debentures A/c Dr. To Debenture holders' A/c (For redemption amount due to debenture holder)		18,00,000 90,000	18,90,000	March 31	Debenture holders' A/c Dr. To Bank A/c (For redemption money paid to debenture holders)		18,90,000	18,90,000	March 31	Debenture redemption reserve A/c Dr. To General reserve A/c (For the amount of DRR transferred to General reserve account)		9,00,000	9,00,000	1 ½ ½										
Date	Particulars	LF	Dr (₹)	Cr (₹)																														
2013 March 31	8% Debentures A/c Dr. Premium on redemption of Debentures A/c Dr. To Debenture holders' A/c (For redemption amount due to debenture holder)		18,00,000 90,000	18,90,000																														
March 31	Debenture holders' A/c Dr. To Bank A/c (For redemption money paid to debenture holders)		18,90,000	18,90,000																														
March 31	Debenture redemption reserve A/c Dr. To General reserve A/c (For the amount of DRR transferred to General reserve account)		9,00,000	9,00,000																														

			<u>Value observed by Maharana Ltd. (Any one)</u> • Concern for environment • Empathy towards health of human beings • Social Welfare • Compliance of Law (Or any other suitable value)	1 = 3 Marks																																																								
-	11	-	Q. Sita, Geeta..... Capital A/c. Ans. . Revaluation A/c Cr. <table><tr><th>Particulars</th><th>Amount (₹)</th><th>Particulars</th><th>Amount (₹)</th></tr><tr><td>To Stock A/c</td><td>1,000</td><td>By Building A/c</td><td>10,000</td></tr><tr><td>To Debtors A/c</td><td>4,000</td><td>By Creditors A/c</td><td>10,000</td></tr><tr><td>To Plant A/c</td><td>10,000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>To Partner's Capital A/c</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sita : 2,000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Geeta: 2,000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rita: <u>1,000</u></td><td>5,000</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td><u>20,000</u></td><td></td><td><u>20,000</u></td></tr></table> Dr. Sita's Capital A/c Cr. <table><tr><th>Particulars</th><th>Amount (₹)</th><th>Particulars</th><th>Amount (₹)</th></tr><tr><td>To Sita's Loan A/c</td><td>$\frac{1}{2}$ 1,32,000</td><td>By Balance b/d</td><td>1,20,000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>By Profit and Loss A/c</td><td>$\frac{1}{2}$ 10,000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>By Revaluation A/c</td><td>$\frac{1}{2}$ 2,000</td></tr><tr><td></td><td><u>1,32,000</u></td><td></td><td><u>1,32,000</u></td></tr></table>	Particulars	Amount (₹)	Particulars	Amount (₹)	To Stock A/c	1,000	By Building A/c	10,000	To Debtors A/c	4,000	By Creditors A/c	10,000	To Plant A/c	10,000			To Partner's Capital A/c				Sita : 2,000				Geeta: 2,000				Rita: <u>1,000</u>	5,000				<u>20,000</u>		<u>20,000</u>	Particulars	Amount (₹)	Particulars	Amount (₹)	To Sita's Loan A/c	$\frac{1}{2}$ 1,32,000	By Balance b/d	1,20,000			By Profit and Loss A/c	$\frac{1}{2}$ 10,000			By Revaluation A/c	$\frac{1}{2}$ 2,000		<u>1,32,000</u>		<u>1,32,000</u>	2 ½ 1 ½ (2 ½+1½) = 4 Marks
Particulars	Amount (₹)	Particulars	Amount (₹)																																																									
To Stock A/c	1,000	By Building A/c	10,000																																																									
To Debtors A/c	4,000	By Creditors A/c	10,000																																																									
To Plant A/c	10,000																																																											
To Partner's Capital A/c																																																												
Sita : 2,000																																																												
Geeta: 2,000																																																												
Rita: <u>1,000</u>	5,000																																																											
	<u>20,000</u>		<u>20,000</u>																																																									
Particulars	Amount (₹)	Particulars	Amount (₹)																																																									
To Sita's Loan A/c	$\frac{1}{2}$ 1,32,000	By Balance b/d	1,20,000																																																									
		By Profit and Loss A/c	$\frac{1}{2}$ 10,000																																																									
		By Revaluation A/c	$\frac{1}{2}$ 2,000																																																									
	<u>1,32,000</u>		<u>1,32,000</u>																																																									
14	12	14	Q. A Ltd.....for the same. Ans.																																																									

			Balance Sheet of A Ltd. As at(As per revised schedule VI) <table><tr><th>Particulars</th><th>Note No.</th><th>Amount Current year</th><th>Amount Previous year</th></tr><tr><td>EQUITY & LIABILITIES</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>I Shareholder's funds :</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> b) Share Capital</td><td>1</td><td>4,80,000</td><td></td></tr></table> Notes to Accounts : <table><tr><th>Particulars</th><th>₹</th></tr><tr><td>(2) <u>Share Capital</u></td><td></td></tr><tr><td> <u>Authorised Capital :</u></td><td></td></tr><tr><td> 1,00,000 equity shares of ₹ 10 each</td><td><u>10,00,000</u></td></tr><tr><td> <u>Issued Capital</u></td><td></td></tr><tr><td> 50,000 equity shares of ₹ 10 each</td><td><u>5,00,000</u></td></tr><tr><td> <u>Subscribed and fully paid capital</u></td><td></td></tr><tr><td> 48,000 shares of ₹ 10 each</td><td><u>4,80,000</u></td></tr></table>	Particulars	Note No.	Amount Current year	Amount Previous year	EQUITY & LIABILITIES				I Shareholder's funds :				b) Share Capital	1	4,80,000		Particulars	₹	(2) <u>Share Capital</u>		<u>Authorised Capital :</u>		1,00,000 equity shares of ₹ 10 each	<u>10,00,000</u>	<u>Issued Capital</u>		50,000 equity shares of ₹ 10 each	<u>5,00,000</u>	<u>Subscribed and fully paid capital</u>		48,000 shares of ₹ 10 each	<u>4,80,000</u>	1 1 1 (1 x 4) = 4 Marks
Particulars	Note No.	Amount Current year	Amount Previous year																																	
EQUITY & LIABILITIES																																				
I Shareholder's funds :																																				
b) Share Capital	1	4,80,000																																		
Particulars	₹																																			
(2) <u>Share Capital</u>																																				
<u>Authorised Capital :</u>																																				
1,00,000 equity shares of ₹ 10 each	<u>10,00,000</u>																																			
<u>Issued Capital</u>																																				
50,000 equity shares of ₹ 10 each	<u>5,00,000</u>																																			
<u>Subscribed and fully paid capital</u>																																				
48,000 shares of ₹ 10 each	<u>4,80,000</u>																																			
13	13	-	Q. (a) Rohan.....to the partners. Ans. c) <u>Sacrifice = Old share of profit – New share of profit</u> Rohan = $5/8 - 4/7 = (35-32) / 56 = 3/56$ Mohan = $3/8 - 2/7 = (21-16) / 56 = 5/56$ Sacrificing Ratio = 3:5 d) <u>Amla's new share</u> = $4/5 - 1/4 = (16 - 5) / 20 = 11/20$ <u>Kamla's new share</u> = $1/5 * 4/4 = 4/20$ <u>Bimla's share</u> = $1/4 * 5/5 = 5/20$ <u>New Profit sharing ratio</u> = <u>11:4:5 of Amla, Kamla and Bimla respectively.</u>	1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 =4Marks																																
12	14	13	Q. A Ltd.....books of A ltd. Ans.																																	

			A Ltd. Journal																																													
			Date	Particulars	L.f.	Dr. Amt (₹)	Cr. Amt (₹)																																									
				a) Plant A/c Building A/c Debtors A/c Stock A/c Furniture A/c To Creditors A/c To B Ltd To Capital Reserve A/c (For Business of B Ltd. Purchased at profit)	Dr. Dr. Dr. Dr. Dr.	40,000 40,000 30,000 50,000 20,000		2																																								
							20,000 1,50,000 10,000																																									
				b) (i)B Ltd To Equity Share Capital A/c To securities premium reserve A/c (For shares issued at premium in consideration)	Dr.	1,20,000	1,00,000 20,000	2																																								
				(ii)B Ltd To Cash A/c/ Bank A/c (For balance paid in cash)	Dr.	30,000	30,000																																									
				b) Or (Combined entry) B Ltd. To Share Capital A/c To Security Premium Reserve A/c To Cash/ Bank A/c (For payment made and shares issued)	Dr.	1,50,000	1,00,000 20,000 30,000																																									
								=4 Marks																																								
-	15	-	Q. X, Y and Z.....the above. Ans. Table showing adjustments																																													
			<table><tr><th>Particulars</th><th>X (₹)</th><th>Y(₹)</th><th>Z(₹)</th><th>Total (₹)</th></tr><tr><td>Profits already distributed (Dr.)</td><td>1,40,800</td><td>1,40,800</td><td>1,40,800</td><td>4,22,400</td></tr><tr><td>Salary (Cr.)</td><td>---</td><td>12,000</td><td>---</td><td>12,000</td></tr><tr><td>Commission (Cr.)</td><td>14,400</td><td>---</td><td>---</td><td>14,400</td></tr><tr><td>Interest on Capital (Cr.)</td><td>48,000</td><td>32,000</td><td>16,000</td><td>96,000</td></tr><tr><td>Profits (Cr.)</td><td>1,50,000</td><td>1,00,000</td><td>50,000</td><td>3,00,000</td></tr><tr><td>Total (Cr.)</td><td>2,12,400</td><td>1,44,000</td><td>66,000</td><td>4,22,400</td></tr><tr><td>Net effect</td><td>71,600(Cr)</td><td>3,200(Cr)</td><td>74,800(Dr)</td><td>---</td></tr></table>					Particulars	X (₹)	Y(₹)	Z(₹)	Total (₹)	Profits already distributed (Dr.)	1,40,800	1,40,800	1,40,800	4,22,400	Salary (Cr.)	---	12,000	---	12,000	Commission (Cr.)	14,400	---	---	14,400	Interest on Capital (Cr.)	48,000	32,000	16,000	96,000	Profits (Cr.)	1,50,000	1,00,000	50,000	3,00,000	Total (Cr.)	2,12,400	1,44,000	66,000	4,22,400	Net effect	71,600(Cr)	3,200(Cr)	74,800(Dr)	---	4
Particulars	X (₹)	Y(₹)	Z(₹)	Total (₹)																																												
Profits already distributed (Dr.)	1,40,800	1,40,800	1,40,800	4,22,400																																												
Salary (Cr.)	---	12,000	---	12,000																																												
Commission (Cr.)	14,400	---	---	14,400																																												
Interest on Capital (Cr.)	48,000	32,000	16,000	96,000																																												
Profits (Cr.)	1,50,000	1,00,000	50,000	3,00,000																																												
Total (Cr.)	2,12,400	1,44,000	66,000	4,22,400																																												
Net effect	71,600(Cr)	3,200(Cr)	74,800(Dr)	---																																												

			Journal					2
			Date	Particulars	LF	Dr (₹)	Cr (₹)	
			2013 31 st March	Z's Capital A/c Dr. To X's Capital A/c To Y's Capital A/c (For adjustment entry of omissions passed)		74,800	71,600 3,200	
								(4+2) =6 Marks
16	16	-	Q. A,B and C.....in the question.					
			B's Capital A/c					
			Particulars	Amt (₹)	Particulars	Amt (₹)		
			To B's Executors A/c	38,400	By Balance B/d	20,000		1
					By Revaluation A/c	3,000		½
					By Reserves A/c	3,000		1
					By profit & loss suspense A/c	3,000		
					By A's Capital A/c	6,000		
					By C's Capital A/c	2,400		1
					By Interest on Capital A/c	1,000		1
				38,400			38,400	
			Value (Any one)					
			- Social Welfare / Community Welfare - Development of infrastructure in rural areas.					1
			(Or any other suitable value)					
			Working Notes:					
			B's share in goodwill = ₹ 28,000 * 3/10 = ₹ 8,400					
			B's share in revaluation profit = ₹ 10,000 * 3/10 = ₹ 3,000					
			B's share of profit = ₹ 10,000 * 3/10 = ₹ 3,000					
			Interest on Capital = ₹ 20,000 * 10/100 * 6/12 = ₹ 1,000					
			Note: No marks for Working Notes					5+1 = 6 marks
18	17	18	Q. C Ltd..... books of L Ltd.					
			Ans.					
			(a)					
			Books of C Ltd.					
			Journal					
			Date	Particulars	L F	Dr. Amt (₹)	Cr. Amt (₹)	
				Share Capital A/c Dr.		80,000		
				To Discount on issue of shares A/c			8,000	
				To Share first call A/c / Calls in arrears A/c			30,000	
				To Share Forfeiture A/c / Forfeited shares A/c			42,000	
				(Being 1,000 shares forfeited for non payment of first call)				1 ½

[illegible]

Ans.	Books of R Ltd.					
	Journal					
	Date	Particulars	L F	Dr. Amt (₹)	Cr. Amt (₹)	
		Bank A/c Dr. To Share Application A/c (For application money received on 9,000 shares)		1,80,000	1,80,000	½
		Share Application A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (For share allotment made)		1,80,000	1,80,000	½
		Share Allotment A/c Dr. Discount on issue of shares A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (For allotment money made due on 9,000 shares)		2,70,000 36,000	3,06,000	1
		Bank A/c Dr. To Share Allotment A/c (For allotment money received on 9,000 shares)		2,70,000	2,70,000	1
		Share first and final call A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (Being first and final call money due)		4,14,000	4,14,000	1
		Bank A/c Dr. To Share first and final call a/c (For first & final call received except on 400 shares) OR Bank A/c Dr. Calls in arrears A/c Dr. To Share first and final call a/c (For first & final call received except on 400 shares)		3,95,600 3,95,600 18,400	3,95,600 4,14,000	1
		Share Capital A/c Dr. To Discount on issue of shares A/c To Share first and final call /Calls in arrears A/c To Share Forfeiture A/c (Being 400 shares forfeited)		40,000	1,600 18,400 20,000	1
		Bank A/c Dr. Discount on issue of shares A/c Dr. Share forfeiture A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (For shares reissued for ₹9 per share fully paid up)		27,000 1,200 1,800	30,000	1

			<table><tr><td>Share forfeiture A/c To Capital reserve A/c (Being forfeiture balance transferred to capital reserve)</td><td>Dr.</td><td></td><td>13,200</td><td>13,200</td></tr></table>	Share forfeiture A/c To Capital reserve A/c (Being forfeiture balance transferred to capital reserve)	Dr.		13,200	13,200	1																																																																																			
Share forfeiture A/c To Capital reserve A/c (Being forfeiture balance transferred to capital reserve)	Dr.		13,200	13,200																																																																																								
				=8 Marks																																																																																								
17	18	17	Q. Alfa and Beta.....society. Ans. Revaluation A/c <table><tr><td colspan="2">Dr.</td><td colspan="2">Cr.</td></tr><tr><td>Particulars</td><td>₹</td><td>Particulars</td><td>₹</td></tr><tr><td>To Creditors A/c</td><td>20,000</td><td>By Outstanding Expenses A/c</td><td>18,000</td></tr><tr><td>To unforeseen liabilities A/c</td><td>20,000</td><td>By Partner's Capital A/c</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Alfa -</td><td>11,000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Beta -</td><td>11,000</td></tr><tr><td></td><td><u>40,000</u></td><td></td><td><u>22,000</u></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td><u>40,000</u></td></tr></table> Partners' Capital A/c <table><tr><td colspan="4">Dr.</td><td colspan="4">Cr.</td></tr><tr><td>Particulars</td><td>Alfa ₹</td><td>Beta ₹</td><td>Gama ₹</td><td>Particulars</td><td>Alfa ₹</td><td>Beta ₹</td><td>Gama ₹</td></tr><tr><td>To Profit & Loss A/c</td><td>20,000</td><td>20,000</td><td>---</td><td>By Balance b/d</td><td>5,00,000</td><td>6,00,000</td><td>---</td></tr><tr><td>To Revaluation A/c</td><td>11,000</td><td>11,000</td><td>---</td><td>By Workmen Comp. Fund A/c</td><td>13,000</td><td>13,000</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>By Bank A/c</td><td>---</td><td>---</td><td>4,00,000</td></tr><tr><td>To Balance c/d</td><td>4,82,000</td><td>6,12,000</td><td>4,00,000</td><td>By Gama's Current A/c</td><td>---</td><td>30,000</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td><u>5,13,000</u></td><td><u>6,43,000</u></td><td><u>4,00,000</u></td><td></td><td><u>5,13,000</u></td><td><u>6,43,000</u></td><td><u>4,00,000</u></td></tr></table> Sacrificing Ratio : Alfa = $\frac{1}{2} - \frac{3}{6} = \text{Nil}$ Beta = $\frac{1}{2} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$	Dr.		Cr.		Particulars	₹	Particulars	₹	To Creditors A/c	20,000	By Outstanding Expenses A/c	18,000	To unforeseen liabilities A/c	20,000	By Partner's Capital A/c				Alfa -	11,000			Beta -	11,000		<u>40,000</u>		<u>22,000</u>				<u>40,000</u>	Dr.				Cr.				Particulars	Alfa ₹	Beta ₹	Gama ₹	Particulars	Alfa ₹	Beta ₹	Gama ₹	To Profit & Loss A/c	20,000	20,000	---	By Balance b/d	5,00,000	6,00,000	---	To Revaluation A/c	11,000	11,000	---	By Workmen Comp. Fund A/c	13,000	13,000	---					By Bank A/c	---	---	4,00,000	To Balance c/d	4,82,000	6,12,000	4,00,000	By Gama's Current A/c	---	30,000	---		<u>5,13,000</u>	<u>6,43,000</u>	<u>4,00,000</u>		<u>5,13,000</u>	<u>6,43,000</u>	<u>4,00,000</u>	2
Dr.		Cr.																																																																																										
Particulars	₹	Particulars	₹																																																																																									
To Creditors A/c	20,000	By Outstanding Expenses A/c	18,000																																																																																									
To unforeseen liabilities A/c	20,000	By Partner's Capital A/c																																																																																										
		Alfa -	11,000																																																																																									
		Beta -	11,000																																																																																									
	<u>40,000</u>		<u>22,000</u>																																																																																									
			<u>40,000</u>																																																																																									
Dr.				Cr.																																																																																								
Particulars	Alfa ₹	Beta ₹	Gama ₹	Particulars	Alfa ₹	Beta ₹	Gama ₹																																																																																					
To Profit & Loss A/c	20,000	20,000	---	By Balance b/d	5,00,000	6,00,000	---																																																																																					
To Revaluation A/c	11,000	11,000	---	By Workmen Comp. Fund A/c	13,000	13,000	---																																																																																					
				By Bank A/c	---	---	4,00,000																																																																																					
To Balance c/d	4,82,000	6,12,000	4,00,000	By Gama's Current A/c	---	30,000	---																																																																																					
	<u>5,13,000</u>	<u>6,43,000</u>	<u>4,00,000</u>		<u>5,13,000</u>	<u>6,43,000</u>	<u>4,00,000</u>																																																																																					

			Balance Sheet of the Reconstituted firm as at 1st April 2013 <table><tr><th>Liabilities</th><th>Amount (₹)</th><th>Assets</th><th>Amount (₹)</th></tr><tr><td>Liability of workmen's compensation claim</td><td>30,000</td><td>Cash in Hand (4,00,000 + 1,00,000-3,20,000)</td><td>1,80,000</td></tr><tr><td>Outstanding Expenses</td><td>12,000</td><td>Sundry Debtors</td><td>7,60,000</td></tr><tr><td>Unforeseen Liability</td><td>20,000</td><td>Stock</td><td>2,00,000</td></tr><tr><td>Capital:</td><td></td><td>Machinery</td><td>3,86,000</td></tr><tr><td>Alfa – 4,82,000</td><td></td><td>Gama's Current A/c</td><td>30,000</td></tr><tr><td>Beta – 6,12,000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gama – <u>4,00,000</u></td><td>14,94,000</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td><u>15,56,000</u></td><td></td><td><u>15,56,000</u></td></tr></table> Value (Any One): • Empathy towards handicapped people. • Social Welfare • Empathy towards financially weaker persons. • Providing opportunities to specially abled persons. (Or any other suitable value)	Liabilities	Amount (₹)	Assets	Amount (₹)	Liability of workmen's compensation claim	30,000	Cash in Hand (4,00,000 + 1,00,000-3,20,000)	1,80,000	Outstanding Expenses	12,000	Sundry Debtors	7,60,000	Unforeseen Liability	20,000	Stock	2,00,000	Capital:		Machinery	3,86,000	Alfa – 4,82,000		Gama's Current A/c	30,000	Beta – 6,12,000				Gama – <u>4,00,000</u>	14,94,000				<u>15,56,000</u>		<u>15,56,000</u>	2 ½ 1 (2+2 ½ +2½ +1) =8 Marks												
Liabilities	Amount (₹)	Assets	Amount (₹)																																																	
Liability of workmen's compensation claim	30,000	Cash in Hand (4,00,000 + 1,00,000-3,20,000)	1,80,000																																																	
Outstanding Expenses	12,000	Sundry Debtors	7,60,000																																																	
Unforeseen Liability	20,000	Stock	2,00,000																																																	
Capital:		Machinery	3,86,000																																																	
Alfa – 4,82,000		Gama's Current A/c	30,000																																																	
Beta – 6,12,000																																																				
Gama – <u>4,00,000</u>	14,94,000																																																			
	<u>15,56,000</u>		<u>15,56,000</u>																																																	
17 OR	18 OR	17 OR	Q. Ram and Shyam.....society. Ans. Realisation A/c <table><tr><th>Particulars</th><th>Amt (₹)</th><th>Particulars</th><th>Amt (₹)</th></tr><tr><td>To Land A/c</td><td>1,20,000</td><td>By Creditors A/c</td><td>65,000</td></tr><tr><td>To Machinery A/c</td><td>65,000</td><td>By Bills Payable A/c</td><td>35,000</td></tr><tr><td>To Goodwill A/c</td><td>10,000</td><td>By Bank A/c</td><td></td></tr><tr><td>To Debtors A/c</td><td>20,000</td><td>Land – 96,000</td><td></td></tr><tr><td>To Stock A/c</td><td>25,000</td><td>Machinery – 35,000</td><td></td></tr><tr><td>To Ram's Capital A/c (65,000 – 9,750) (Creditors)</td><td>55,250</td><td>Stock - 18,750</td><td></td></tr><tr><td>To Shyam's Capital A/c (B/P)</td><td>35,000</td><td>Debtors – <u>12,500</u></td><td>1,62,250</td></tr><tr><td>To Shyam's Capital A/c (Realisation Expense)</td><td>1,750</td><td>By partners' capital a/c</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ram: 27,900</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Shyam : <u>41,850</u></td><td>69,750</td></tr><tr><td></td><td><u>3,32,000</u></td><td></td><td><u>3,32,000</u></td></tr></table>	Particulars	Amt (₹)	Particulars	Amt (₹)	To Land A/c	1,20,000	By Creditors A/c	65,000	To Machinery A/c	65,000	By Bills Payable A/c	35,000	To Goodwill A/c	10,000	By Bank A/c		To Debtors A/c	20,000	Land – 96,000		To Stock A/c	25,000	Machinery – 35,000		To Ram's Capital A/c (65,000 – 9,750) (Creditors)	55,250	Stock - 18,750		To Shyam's Capital A/c (B/P)	35,000	Debtors – <u>12,500</u>	1,62,250	To Shyam's Capital A/c (Realisation Expense)	1,750	By partners' capital a/c				Ram: 27,900				Shyam : <u>41,850</u>	69,750		<u>3,32,000</u>		<u>3,32,000</u>	3
Particulars	Amt (₹)	Particulars	Amt (₹)																																																	
To Land A/c	1,20,000	By Creditors A/c	65,000																																																	
To Machinery A/c	65,000	By Bills Payable A/c	35,000																																																	
To Goodwill A/c	10,000	By Bank A/c																																																		
To Debtors A/c	20,000	Land – 96,000																																																		
To Stock A/c	25,000	Machinery – 35,000																																																		
To Ram's Capital A/c (65,000 – 9,750) (Creditors)	55,250	Stock - 18,750																																																		
To Shyam's Capital A/c (B/P)	35,000	Debtors – <u>12,500</u>	1,62,250																																																	
To Shyam's Capital A/c (Realisation Expense)	1,750	By partners' capital a/c																																																		
		Ram: 27,900																																																		
		Shyam : <u>41,850</u>	69,750																																																	
	<u>3,32,000</u>		<u>3,32,000</u>																																																	

			Partners' Capital A/c						
			Dr.			Cr.			
			Particulars	Ram ₹	Shyam ₹	Particulars	Ram ₹	Shyam ₹	
			To Realisation A/c	27,900	41,850	By Balance b/d	75,000	75,000	2
			To Bank A/c	1,02,350	69,900	By Realisation A/c	55,250	36,750	
				<u>1,30,250</u>	<u>1,11,750</u>		<u>1,30,250</u>	<u>1,11,750</u>	
			Bank A/c						
			Dr.			Cr.			
			Particulars	₹	Particulars	₹			
			To Cash A/c	10,000	By Ram's Capital A/c	1,02,350	1		2
			To realisation A/c (assets) 1	1,62,250	By Shyam's Capital A/c	69,900			
				<u>1,72,250</u>		<u>1,72,250</u>			
			Value (Any One):						1
			• Protection of environment by plantation of trees • Community welfare						= 8marks
			(Or any other suitable value)						
			PART B						
			(Financial Statements Analysis)						
20	19	-	Q. What is meant by 'Cash Flow'? Ans. Cash flows implies movement of cash in and out of non cash items. OR Cash flow means the inflow and outflow of cash and cash equivalents.						1 Mark
-	20	-	Q. State.....statements. Ans. Limitations of Financial Statement Analysis: (Any one) • Limitations of financial statements • Affected by window dressing • Do not reflect changes in price level • Different accounting policies • Effect of personal ability and bias of the analyst. • Difficulty in forecasting • Lack of Qualitative analysis. • Limited use of single year's analysis of financial statements.						1 mark
21	21	19	Q. State with flow statement. Ans. No flow of cash Reason: Debentures are issued to vendor for purchase of machinery so neither cash inflow nor cash outflow takes place.						1 Mark

22	22	22	Q. State under which Companies Act, 1956. Ans. <table><tr><th>S.No.</th><th>Items</th><th>Major Headings</th></tr><tr><td>1</td><td>Long Term Borrowings</td><td>Non current Liabilities</td></tr><tr><td>2</td><td>Trade Payables</td><td>Current Liabilities</td></tr><tr><td>3</td><td>Provision for tax</td><td>Current Liabilities</td></tr><tr><td>4</td><td>Securities Premium Reserve</td><td>Shareholders' funds</td></tr><tr><td>5</td><td>Patents</td><td>Non Current assets</td></tr><tr><td>6</td><td>Accrued Incomes</td><td>Current assets</td></tr></table>	S.No.	Items	Major Headings	1	Long Term Borrowings	Non current Liabilities	2	Trade Payables	Current Liabilities	3	Provision for tax	Current Liabilities	4	Securities Premium Reserve	Shareholders' funds	5	Patents	Non Current assets	6	Accrued Incomes	Current assets	$\frac{1}{2} \times 6$ = 3 Marks																																	
S.No.	Items	Major Headings																																																								
1	Long Term Borrowings	Non current Liabilities																																																								
2	Trade Payables	Current Liabilities																																																								
3	Provision for tax	Current Liabilities																																																								
4	Securities Premium Reserve	Shareholders' funds																																																								
5	Patents	Non Current assets																																																								
6	Accrued Incomes	Current assets																																																								
23	23	23	Q. From the following ratio. Ans. (c) Gross Profit ratio = Gross Profit / Net revenue from operations * 100 Gross Profit = Revenue from Operations – Cost of revenue from operations = 30,00,000 – 20,00,000 = ₹ 10,00,000 Net Revenue from operations = ₹ 30,00,000 Gross profit ratio = 10,00,000 / 30,00,000 * 100 = 33.3% (d) Working capital turnover ratio = Net revenue from operations / Working Capital Net revenue from operations = ₹ 30,00,000 Working Capital = Current Assets – Current Liabilities = 6,00,000-2,00,000 = ₹ 4,00,000 Working capital turnover ratio = 30,00,000/4,00,000 = 7.5 times	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 =4 Marks																																																						
-	24	-	Q. From the following..... Loss. Ans. COMPARATIVE STATEMENT OF PROFIT & LOSS For the years ended 31st March, 2012 and 2013 <table><tr><th>Particulars</th><th>Note No.</th><th>2011-12 (₹)</th><th>2012-13 (₹)</th><th>Absolute change</th><th>Change In %age</th></tr><tr><td>Revenue from Operations</td><td></td><td>30,00,000</td><td>48,00,000</td><td>18,00,000</td><td>60</td></tr><tr><td>Less: Expenses</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Employees' benefit expenses</td><td></td><td>18,00,000</td><td>22,00,000</td><td>4,00,000</td><td>22.2</td></tr><tr><td>Other Expenses</td><td></td><td>4,00,000</td><td>2,00,000</td><td>(2,00,000)</td><td>(50)</td></tr><tr><td>Total Expenses</td><td></td><td>22,00,000</td><td>24,00,000</td><td>2,00,000</td><td>9.09</td></tr><tr><td>Profit before Tax</td><td></td><td>8,00,000</td><td>24,00,000</td><td>16,00,000</td><td>200</td></tr><tr><td>Less: Tax @ 40%</td><td></td><td>3,20,000</td><td>9,60,000</td><td>6,40,000</td><td>200</td></tr><tr><td>Profit after tax</td><td></td><td>4,80,000</td><td>14,40,000</td><td>9,60,000</td><td>200</td></tr></table>	Particulars	Note No.	2011-12 (₹)	2012-13 (₹)	Absolute change	Change In %age	Revenue from Operations		30,00,000	48,00,000	18,00,000	60	Less: Expenses						Employees' benefit expenses		18,00,000	22,00,000	4,00,000	22.2	Other Expenses		4,00,000	2,00,000	(2,00,000)	(50)	Total Expenses		22,00,000	24,00,000	2,00,000	9.09	Profit before Tax		8,00,000	24,00,000	16,00,000	200	Less: Tax @ 40%		3,20,000	9,60,000	6,40,000	200	Profit after tax		4,80,000	14,40,000	9,60,000	200	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 =4 Marks
Particulars	Note No.	2011-12 (₹)	2012-13 (₹)	Absolute change	Change In %age																																																					
Revenue from Operations		30,00,000	48,00,000	18,00,000	60																																																					
Less: Expenses																																																										
Employees' benefit expenses		18,00,000	22,00,000	4,00,000	22.2																																																					
Other Expenses		4,00,000	2,00,000	(2,00,000)	(50)																																																					
Total Expenses		22,00,000	24,00,000	2,00,000	9.09																																																					
Profit before Tax		8,00,000	24,00,000	16,00,000	200																																																					
Less: Tax @ 40%		3,20,000	9,60,000	6,40,000	200																																																					
Profit after tax		4,80,000	14,40,000	9,60,000	200																																																					
25	25	25	Q. Prepare a Cash flow Statement was ₹ 28,000. Ans.																																																							

			Cash flow statement																																									
			For the year ended 31 st March 2013 as per AS-3 (Revised)																																									
			Particulars		Details (₹)	Amount (₹)																																						
			A)Cash Flows from Operating Activities:																																									
			Net Profit before tax & extraordinary items		1,26,000																																							
			Add: Depreciation on machinery		28,000																																							
			Less: Profit on sale of machinery		(14,000)																																							
			Operating_ profit before working capital changes		1,40,000																																							
			Add: Increase in trade payables		98,000																																							
			Decrease in inventories		42,000																																							
			Less: Increase in trade receivables		(2,10,000)																																							
			Cash generated from Operating Activities			70,000	2 ½																																					
			B)Cash flows from Investing Activities :																																									
			Purchase of machinery		(1,82,000)																																							
			Sale of machinery		56,000																																							
			Cash used in investing activities			(1,26,000)	1 ½																																					
			C)Cash flows from Financing Activities:																																									
			Issue of share capital		70,000																																							
			Cash from financing activities			70,000	1																																					
			Net increase in cash & cash equivalents(A+B+C)			14,000	1																																					
			Add: Opening balance of cash & cash equivalents:			84,000																																						
			Closing Balance of cash & cash equivalents:			98,000																																						
			Working Notes:					=6 marks																																				
			<table><tr><td colspan="2">Dr</td><td colspan="2">Machinery A/c</td><td colspan="2">Cr</td></tr><tr><td>Particulars</td><td>Amt (₹)</td><td>Particulars</td><td>Amt (₹)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>To Balance b/d</td><td>2,80,000</td><td>By Depreciation A/c</td><td>28,000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>To Profit & Loss A/c (Profit)</td><td>14,000</td><td>By Bank A/c</td><td>56,000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>To Bank A/c (Purchase)</td><td>1,82,000</td><td>By Balance C/d</td><td>3,92,000</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>4,76,000</td><td></td><td>4,76,000</td><td></td><td></td></tr></table>					Dr		Machinery A/c		Cr		Particulars	Amt (₹)	Particulars	Amt (₹)			To Balance b/d	2,80,000	By Depreciation A/c	28,000			To Profit & Loss A/c (Profit)	14,000	By Bank A/c	56,000			To Bank A/c (Purchase)	1,82,000	By Balance C/d	3,92,000				4,76,000		4,76,000			
Dr		Machinery A/c		Cr																																								
Particulars	Amt (₹)	Particulars	Amt (₹)																																									
To Balance b/d	2,80,000	By Depreciation A/c	28,000																																									
To Profit & Loss A/c (Profit)	14,000	By Bank A/c	56,000																																									
To Bank A/c (Purchase)	1,82,000	By Balance C/d	3,92,000																																									
	4,76,000		4,76,000																																									
			PART C																																									
			(Computerized Accounting)																																									
21	19	20	Q. What..... normalisation?					1 mark																																				
			Ans. Normalisation is the process for removing data redundancy.																																									
19	20	21	Q. State.....System.					1 mark																																				
			Ans. Any One of the following advantages:																																									
			- Timely generation of reports and information in desired format. - Efficient record keeping. - Ensures effective control over the system. - Economy in the processing of accounting data. - Confidentiality of data is maintained.																																									

20	21	19	Q. Give any..... can be created. Ans. Query can be created in the following ways: (Any 2) • Design View • Wizard • SQL View	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ =1 mark
22	22	22	Q. Explain.....system. Ans. Scalability: CAs enable in changing the volume of data processing in tune with the change in the size of the business. The software can be used for any size of the business and type of the organisation. Reliability: CAs make sure that the generalised critical financial information is accurate, controlled and secured	1 ½ 1 ½ =3 marks
24	23	24	Q. Explain.....objects. Ans. • Tables: The object which is used to hold data/raw data in a data base. • Forms: This object class provides information about the application, manipulates data in a table. • Reports: This object class is used to show the results generated in report form based on tables, queries or both. • Macros: A macro is a list of macro oriented actions that run as a unit, so they help us to automate and speed up the work.	(1*4) =4 marks
23	24	23	Q. State.....formula. Ans. To validate data based on formula following are the steps: 7. In the Allow drop down menu, select Custom. 8. In the formula box, enter a formula that calculates a logical value. If the formula calculates true entry will be valid otherwise invalid. 9. We can also prevent duplicate entries by checking duplicate entry. 10. We can limit the sum value for a range which will cause error if sum of the values exceeds the given total. 11. We can prevent user from adding spaces before or after the text in entry. The TRIM function removes spaces before and after text. 12. By activating or selecting WEEKDAY function, the entry of dates that falls on weekend can also be prevented.	4 marks
25	-	-	Q.Name.....25%. Ans. (c) Name of the function – CUMIPMT Syntax of formula: CUMIPMT (Rate, nper,PV,start_period,end_period,type) Where, Rate: interest rate Nper: Total number of payment periods PV: present value Start_period: It is the first period in calculation. Payment periods are numbered beginning with 1. End_period: It is the last period in calculations. (d) B2 = IF(A2>25,000 , 0.25* A2 , 0.2*A2)	1 mark 3 marks 2 marks =6 marks